

## Media Coverage

Publication	Date	Edition	Link	Headline
Divya himachal	14 April 2021	Online	<a href="https://www.divyahimachal.com/2021/04/your-salary-will-increase-by-10-this-year-a-survey-by-staffing-company-genius-consultants-expects-relief-among-corona/">https://www.divyahimachal.com/2021/04/your-salary-will-increase-by-10-this-year-a-survey-by-staffing-company-genius-consultants-expects-relief-among-corona/</a>	इस साल 10 फीसदी तक बढ़ेगी आपकी सैलरी, स्टाफिंग कंपनी जीनियस कंसल्टेंट्स के एक सर्वे में कोरोना के बीच राहत की उम्मीद



कोरोना की दूसरी लहर के बीच नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत की खबर है। इस बार आपकी सैलरी बढ़ सकती है। स्टाफिंग कंपनी जीनियस कंसल्टेंट्स के एक सर्वे में कहा गया है कि कंपनियां इंक्रीमेंट देने के मूड में हैं। यह पांच से दस फीसदी तक हो सकता है। जीनियस कंसल्टेंट्स के सर्वे में देशभर की 1200 कंपनियां शामिल की गईं। इनमें से 59 फीसदी कंपनियों ने कहा कि वे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के मूड में हैं। 20 फीसदी ने कहा कि सैलरी बढ़ाएंगे, लेकिन यह पांच फीसदी से भी कम होगा, जबकि 21 फीसदी कंपनियों ने कहा कि वे सैलरी नहीं बढ़ाएंगी। सर्वे में शामिल 43 फीसदी कंपनियों ने कहा कि वे फ्रेशर्स को नौकरी देंगी।

वहीं 41 फीसदी कंपनियों की योजना रिप्लेसमेंट हायरिंग यानी अनुभवी कर्मचारियों को नौकरी देने की है। 11 फीसदी कंपनियां इस बार नौकरी देने की स्थिति में नहीं हैं। एक और खास बात सामने आई है कि साउथ इंडिया बेस्ड कंपनियां नई हायरिंग में सबसे आगे रहेंगी, जिनमें बंगलूर, चेन्नई जैसे शहरों की कंपनियां शामिल हैं। इसके बाद वेस्टर्न इंडिया यानी मुंबई जैसे शहरों की कंपनियां ज्यादा नौकरी देंगी।

To read more click on the link

इस सर्वे में बैंकिंग एंड फायनांस, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया, फार्मा, मेडिकल, पावर एंड एनर्जी और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर की कंपनियां शामिल की गई थीं। सर्वे करने वाली कंपनी जीनियस कंसल्टेंट्स ने बताया कि हायरिंग के लिहाज से 2021 उम्मीदों भरा है। भारतीय कंपनियों की हालत तेजी से सुधर रही है, जो पिछले साल महामारी के चलते बिगड़ गई थी। कंपनियां अब मार्केट डिमांड के हिसाब से सैलरी पैकेज ऑफर कर रहीं हैं।